

ख़ास-ख़बरे

समुद्री जहाजों के ईंधन में भी 10 प्रतिशत जैव ईंधन मिश्रण का प्रस्ताव

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: समुद्री परिवहन में जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नया रोडमैप तैयार किया है। समुद्री महानिदेशालय ने समुद्री जहाजों के ईंधन में 10 प्रतिशत जैव ईंधन मिश्रण का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत समुद्री ईंधन में 10 प्रतिशत जैव ईंधन मिलाने की व्यवस्था लागू करने की योजना है।प्रस्ताव का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। समुद्री महानिदेशालय की ओर से तैयार किए गए रोडमैप में समुद्री जहाजों में जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत समुद्री जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में 10 प्रतिशत जैव ईंधन मिलाया जाएगा। यह व्यवस्था समुद्री परिवहन के लिए ईंधन के मिश्रण से संबंधित होगी। इसके जरिए जैव ईंधन की मांग बढ़ाने और इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। जैव ईंधन का इस्तेमाल परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किया जाता है। इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। सरकार परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने पर काम कर रही है।

सार्वजनिक बैंक ज़ेन जेड के लिए बनाएं आसान और आधुनिक माहौल : निर्मला सीतारमण

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से युवाओं, खासकर जेन जेड ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार बैंकिंग सेवाओं को आधुनिक और आसान बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बैंकों को ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए, जिससे युवा बैंकिंग से जुड़ाव महसूस करें। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने युवाओं से बातचीत की है और उनकी अपेक्षाओं को समझने की कोशिश की है। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे अपनी सेवाओं और काम करने के तरीके में बदलाव लाएं, ताकि नई पीढ़ी के ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके। निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ हुई बैठक में बैंकिंग व्यवस्था को अधिक आधुनिक, सरल और ग्राहक केंद्रित बनाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज के युवा डिजिटल माध्यमों का अधिक उपयोग करते हैं, इसलिए बैंकों को भी अपनी सेवाओं को उसी के अनुरूप विकसित करना होगा। उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे जेन जेड ग्राहकों के लिए बैंकिंग को अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बनाएं। इसके लिए डिजिटल सेवाओं, बेहतर ग्राहक अनुभव और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर ध्यान देने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि बदलते समय के साथ बैंकिंग क्षेत्र को भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा। युवाओं की अपेक्षाएं पहले की तुलना में अलग हैं और वे तेज, आसान तथा डिजिटल सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाओं, डिजिटल सुविधाओं और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने बैंकों से भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र को नई पीढ़ी के साथ जुड़ने के लिए आधुनिक सोच और नई तकनीक को अपनाना होगा।

इंडिगो की ऑनलाइन सेवाओं में तकनीकी खराबी, टिकट बुकिंग और चेक-इन प्रभावित



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की ऑनलाइन सेवाओं में तकनीकी समस्या आने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइन की वेबसाइट और मोबाइल एप पर कुछ समय तक

उड़ानों का शेड्यूल और किराया नहीं दिख रहा था, जिसके कारण नई टिकट बुकिंग प्रभावित हुई। इंडिगो ने बताया कि सिस्टम में रुक-रुककर तकनीकी दिक्कत आ रही है। इससे कुछ ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल

नियंत्रण

रुपये को गिरने से बचाने की कोशिश न करें, बाजार को तय करने दें मुद्रा का स्तर

महंगाई नियंत्रित रखना हो सरकार का मुख्य लक्ष्य: सान्याल

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा है कि भारत को रुपये में गिरावट रोकने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके बजाय रुपये का स्तर बाजार की परिस्थितियों के अनुसार तय होने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का मुख्य ध्यान महंगाई दर को नियंत्रण में रखने पर होना चाहिए। सान्याल के अनुसार, मुद्रा के विनिमय दर को किसी निश्चित स्तर पर बनाए रखने की कोशिश करने के बजाय बाजार को रुपये का स्तर निर्धारित करने देना अधिक उचित है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक नीति में महंगाई को नियंत्रित रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जब भारत ने महंगाई लक्ष्य



निर्धारण व्यवस्था को अपनाया था, तब देश ने मुद्रा की विनिमय दर के बजाय

मौद्रिक नीति को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया था।

नईदुनिया

बीवाईडी सीलायन 7 का नया एंट्री-लेवल वैरिएंट लॉन्च

520 किलोमीटर की रेंज, 41.90 लाख रुपये कीमत; हुंडई आयोनिक 5 से मुकाबला

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: चीनी वाहन कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स (बीवाईडी) ने भारत में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सीलायन 7 का नया एंट्री-लेवल वैरिएंट डायनेमिक लॉन्च किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 41.90 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी के अनुसार, यह वैरिएंट एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर 520 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है।

कंपनी नए वैरिएंट के साथ 10 साल का रोडसाइड असिस्टेंस दे रही है। इसके अलावा एलएफपी लो-

वोल्टेज बैटरी पर 10 साल या 1.5 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, की विस्तारित वारंटी दी जा रही है। भारतीय बाजार में सीलायन 7 का मुकाबला हुंडई आयोनिक 5, किया ईवी6 और बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों से है। कंपनी भारत में अब तक इस एसयूवी की 4,000 से अधिक इकाइयां बेच चुकी है। सीलायन 7 डायनेमिक का बाहरी डिजाइन इसके प्रीमियम वैरिएंट जैसा ही स्पोर्टी और कूपे शैली का है। इसमें सील ईवी जैसी हेडलाइट, बंद ग्रिल, फ्रंट बंपर पर



आक्रामक कट और क्रोज लाइन तथा नीचे काले रंग की फिनिश दी गई है। साइड प्रोफाइल में 19 इंच के डुअल-

टोन अलॉय व्हील मिलते हैं, जबकि 20 इंच के व्हील विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं।

बेहतर डेटा, अत्याधुनिक कंप्यूटिंग क्षमता और लगातार शोध की आवश्यकता

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर भारतीय एआई मॉडल अभी भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। भारत के सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल में शामिल सर्वम एआई का 105 अरब पैरामीटर वाला मॉडल भी कई अंतरराष्ट्रीय मॉडलों से पीछे बताया जा रहा है।

दुनिया में वर्तमान समय में 257 ऐसे एआई मॉडल मौजूद हैं, जिन्हें डेवलपर्स खरीदकर या उपयोग के लिए अपना सकते हैं। इनमें कई मॉडल अमेरिका और चीन की कंपनियों द्वारा विकसित किए गए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारतीय मॉडल प्रदर्शन के मामले में बड़ी संख्या में विदेशी मॉडलों से पीछे है।

सर्वम एआई ने कम लातत में एआई मॉडल उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक डेवलपर्स और कंपनियों तक एआई तकनीक को पहुंचाना है।



हालांकि, कम कीमत के बावजूद मॉडल की क्षमता और प्रदर्शन को लेकर वैश्विक स्तर पर इसे अभी लंबा सफर तय करना है।

एआई मॉडल की क्षमता का आकलन कई आधारों पर किया जाता है। इनमें भाषा समझने की क्षमता,

तर्क करने की योग्यता, सवालों के जवाब देने की सटीकता और अलग-अलग कार्यों को पूरा करने की दक्षता शामिल होती है। वैश्विक कंपनियों द्वारा विकसित कई मॉडल इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में एआई तकनीक को बढ़ावा देने के

लिए कई कंपनियां और संस्थान काम कर रहे हैं। भारतीय एआई मॉडल विकसित करने का उद्देश्य देश की जरूरतों के अनुसार तकनीक तैयार करना और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करना है।

विशेषज्ञों के अनुसार, एआई क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए केवल कम लागत वाले मॉडल बनाना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए बेहतर डेटा, अत्याधुनिक कंप्यूटिंग क्षमता और लगातार शोध की आवश्यकता होगी। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय एआई मॉडलों को अपनी तकनीकी क्षमताओं में और सुधार करना होगा। भारतीय एआई क्षेत्र के सामने चुनौती यह है कि वह कम लागत के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता और बेहतर प्रदर्शन वाले मॉडल विकसित करे। आने वाले समय में एआई तकनीक में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत के लिए नवाचार और शोध को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा।

सैंसेक्स 628 अंक चढ़ा, निफ्टी में 154 अंक की बढ़त मीडिया, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों में रही जोरदार खरीदारी

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी रही। सेंसेक्स 628 अंक चढ़कर 77,538 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 154 अंक की बढ़त दर्ज की गई और यह 24,232 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान मीडिया, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों में निवेशकों की ओर से अधिक खरीदारी देखने को मिली। थर्मल इंजीनियरिंग और विशेषीकृत केबल बनाने वाली कंपनी टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आज खुल गया। निवेशक इसमें 24 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 650 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक में 381 अंकों की बढ़त रही और यह 6,853 पर बंद हुआ। जापान के निक्केई में 890 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 66,217 पर



रहा। हांगकांग के हेंगसेंग में 203 अंकों की तेजी रही और यह 25,698 के स्तर पर बंद हुआ। 19 अगस्त को अमेरिकी बाजारों में भी बढ़त रही। डाउ जोन्स 120 अंक चढ़ा, जबकि नैसडैक में 41 और एसएंडपी 500 में 16 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बीते सात दिनों में 12,011 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। बीते

30 दिनों में उनकी खरीदारी 42,078 करोड़ रुपये रही। विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बीते सात दिनों में 33 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इससे पहले 19 अगस्त को बाजार में गिरावट रही थी। सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 76,910 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 77 अंक की गिरावट के साथ 24,078 पर रहा।

दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मालवाहक वाहनों के पंजीकरण पर रोक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्वैएम) ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले हल्के मालवाहक वाहनों के नए पंजीकरण पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह नियम वर्ष 2027 से लागू होगा। आयोग के अनुसार, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों को कम करने

के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। विशेष रूप से वाहनों से निकलने वाले पीएम2.5 जैसे सूक्ष्म कण वायु प्रदूषण में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

नए नियम के लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हल्के मालवाहक वाहनों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव आएगा। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी आधारित ऐसे वाहनों के नए पंजीकरण को अनुमति नहीं दी जाएगी।

एसबीआई में चार बार से ज्यादा नकद निकासी पर लगेगा शुल्क

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) खाताधारकों के लिए सेवा शुल्क से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। इसके तहत खाताधारकों को हर महीने चार बार तक नकद निकासी की सुविधा निशुल्क मिलेगी।

नए नियम लागू होने के बाद बीएसबीडी खाताधारक तय सीमा से अधिक नकद निकासी करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना होगा। चार बार से ज्यादा नकद निकासी करने पर पांचवीं और उसके बाद की प्रत्येक निकासी पर बैंक 15 रुपये और जीएसटी के रूप में शुल्क वसूलेगा।

एसबीआई की ओर से यह बदलाव बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों में दी जाने वाली निशुल्क सेवाओं के तहत किया गया है। नए नियमों के अनुसार, खाताधारकों को महीने में चार नकद निकासी तक किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद होने वाली प्रत्येक नकद

बीएसबीडी खाताधारकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे नए नियम

निकासी पर निर्धारित शुल्क लागू होगा। बीएसबीडी खाते ऐसे बचत खाते होते हैं जिनमें न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती। इन खातों के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। बैंक की ओर से नए नियमों को लेकर जानकारी जारी की गई है। खाताधारकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी नकद निकासी की सीमा का ध्यान रखें, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।

एसबीआई देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और बड़ी संख्या में ग्राहक इसकी विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं। नए सेवा शुल्क नियमों का असर खासतौर पर उन बीएसबीडी खाताधारकों पर पड़ेगा जो महीने में चार से अधिक बार नकद निकासी करते हैं।